



11078CH12

अध्याय 11

## त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय (Introduction to Three Dimensional Geometry)

❖ *Mathematics is both the queen and the hand-maiden of all sciences – E.T. BELL* ❖

### 11.1 भूमिका (Introduction)

हम जानते हैं, कि किसी तल में स्थित एक बिंदु की स्थिति निर्धारण के लिए हमें उस तल में दो परस्पर लंब एवं प्रतिच्छेदित रेखाओं से लांबिक दूरियों की आवश्यकता होती है। इन रेखाओं को निर्देशांक और उन दो लांबिक दूरियों को अक्षों के सापेक्ष उस बिंदु के निर्देशांक (coordinate) कहते हैं। वास्तविक जीवन में हमारा केवल एक तल में स्थित बिंदुओं से ही संबंध नहीं रह जाता है। उदाहरणतः अंतरिक्ष में फेंके गए एक गेंद की विभिन्न समय में स्थिति अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के दौरान वायुयान की एक विशिष्ट समय में स्थिति आदि, को भी जानने की आवश्यकता पड़ती है।

इसी प्रकार एक कमरे की छत से लटकते हुए एक विद्युत बल्ब

की निचली नोक अथवा छत के पंखे की नोक की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें उन बिंदुओं की दो परस्पर लंब दीवारों से दूरियाँ मात्र ही पर्याप्त नहीं हैं बल्कि उस बिंदु की, कमरे के फर्श से ऊँचाई, की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः हमें केवल दो नहीं बल्कि तीन परस्पर लांबिक तलों से लंबवत् दूरियों को निरूपित करने के लिए तीन संख्याओं की आवश्यकता होती है, जो बिंदु की दो परस्पर लंब दीवारों से दूरियाँ, तथा उस कमरे के फर्श से ऊँचाई को व्यक्त करती हैं। कमरे की परस्पर लंब दीवारों तथा उस क्षेत्र का फर्श तीन परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले तल हैं। इन परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले तलों से लंब दूरियों को व्यक्त करने वाली तीन संख्याएँ उस बिंदु के तीन निर्देशांक तलों के सापेक्ष निर्देशांक कहलाते हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष (space) में स्थित एक बिंदु के तीन निर्देशांक होते हैं। इस अध्याय में हम त्रिविमीय अंतरिक्ष में ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे।




Leonhard Euler  
(1707-1783 A.D.)

## 11.2 त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक-तल (Coordinate Axes and Coordinate Planes in Three Dimensional Space)

बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करने वाले तीन परस्पर लंब तलों की कल्पना कीजिए (आकृति 11.1)। ये तीनों तल रेखाओं X'OX, Y'OY और Z'OZ पर प्रतिच्छेदित करते हैं जिन्हें क्रमशः x-अक्ष, y-अक्ष और z-अक्ष कहते हैं। हम स्पष्टतः देखते हैं कि ये तीनों रेखाएँ परस्पर लंब हैं। इन्हें हम समकोणिक निर्देशांक निकाय कहते हैं। XOY, YOZ और ZOX, तलों को क्रमशः XY-तल, YZ-तल, तथा ZX-तल, कहते हैं। ये तीनों तल निर्देशांक तल कहलाते हैं।

हम कागज के तल को XOY तल लेते हैं। और Z'OZ रेखा को तल XOY पर लंबवत् लेते हैं। यदि कागज के तल को क्षैतिजतः रखें तो Z'OZ रेखा ऊर्ध्वारतः होती है। XY-तल से OZ की दिशा में ऊपर

की ओर नापी गई दूरियाँ धनात्मक और OZ' की दिशा में नीचे की ओर नापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं। ठीक उसी प्रकार ZX-तल के दाहिने OY दिशा में नापी गई दूरियाँ ऋणात्मक और ZX तल के बाएँ OY' की दिशा में नापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं। YZ-तल के सम्मुख OX दिशा में नापी गई दूरियाँ धनात्मक तथा इसके पीछे OX' की दिशा में नापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं। बिंदु O को निर्देशांक निकाय का मूल बिंदु कहते हैं। तीन निर्देशांक तल अंतरिक्ष को आठ भागों में बांटते हैं, इन अष्टाशों के नाम XOYZ, X'OYZ, X'OY'Z, XOY'Z, XOYZ', X'OY'Z', X'OYZ' और XOY'Z' हैं। और जिन्हें क्रमशः I, II, III, ..., VIII द्वारा प्रदर्शित करते हैं।




आकृति 11.1

## 11.3 अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक (Coordinates of a Point in Space)

अंतरिक्ष में निश्चित निर्देशांकों, निर्देशांक तलों और मूल बिंदु सहित निर्देशांक निकाय के चयन के पश्चात् दिए बिंदु के तीन निर्देशांक  $(x, y, z)$  को ज्ञात करने की विधि तथा विलोमतः तीन संख्याओं के त्रिदिक (Triplet) दिए जाने पर अंतरिक्ष में संगत बिंदु  $(x, y, z)$  के निर्धारण करने की विधि की अब हम विस्तार से व्याख्या करते हैं।

अंतरिक्ष में दिए गए बिंदु P से XY-तल पर PM लंब खींचते हैं जिसका पाद M है (आकृति 11.2)। तब M से x-अक्ष पर ML लंब खींचिए, जो उससे L पर मिलता है। मान लीजिए  $OL=x$ ,  $LM=y$  और  $PM=z$  तब  $(x, y, z)$  बिंदु P के निर्देशांक कहलाते हैं। इसमें  $x, y, z$  को क्रमशः बिंदु P के  $x$ -निर्देशांक,  $y$ -निर्देशांक, तथा  $z$ -निर्देशांक X-XYOZ में स्थित है, अतः  $x, y$  और  $z$  सभी धनात्मक हैं।




आकृति 11.2

यदि P किसी अन्य अष्टांश में हो तो  $x, y$  और  $z$  के चिह्न तदनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु P की संगतता वास्तविक संख्याओं के क्रमित त्रिदिक  $(x, y, z)$  से किया जाता है।

**विलोमतः:** किसी त्रिदिक  $(x, y, z)$  के दिए जाने पर हम  $x$  के संगत  $x$ -अक्ष पर बिंदु L निर्धारित करते हैं। पुनः XY-तल में बिंदु M निर्धारित करते हैं, जहाँ इसके निर्देशांक  $(x, y)$  हैं। ध्यान दीजिए कि LM या तो  $x$ -अक्ष पर लंब है अथवा  $y$ -अक्ष के समांतर है। बिंदु M पर पहुँचने के पश्चात् हम XY-तल पर MP लंब खींचते हैं, इसपर बिंदु P को  $z$  के संगत निर्धारण करते हैं। इस प्रकार निर्धारित बिंदु P के निर्देशांक  $(x, y, z)$  हैं। अतः अंतरिक्ष में स्थित बिंदुओं की वास्तविक संख्याओं के क्रमित त्रिदिक  $(x, y, z)$  से सदैव एकेक-संगतता रखते हैं।

**विकल्पतः:** अंतरिक्ष में स्थित बिंदु P से हम निर्देशांक तलों के समांतर तीन तल खींचते हैं, जो  $x$ -अक्ष,  $y$ -अक्ष और  $z$ -अक्ष को क्रमशः A, B तथा C बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं (आकृति 11.3)। यदि  $OA=x, OB=y$  तथा  $OC=z$  हो तो बिंदु P के निर्देशांक  $x, y$  और  $z$  होते हैं और इसे हम  $P(x, y, z)$  के रूप में लिखते हैं। **विलोमतः:**  $x, y$  और  $z$  के दिए जाने पर हम निर्देशांकों पर बिंदु A, B तथा C निर्धारित करते हैं। बिंदु A, B तथा C से हम क्रमशः YZ-तल, ZX-तल तथा XY-तल के समांतर तीन तल खींचते हैं। इन तीनों तलों को ADPF, BDPE तथा CEPF का प्रतिच्छेदन बिंदु स्पष्टतः P है, जो क्रमित-त्रिदिक  $(x, y, z)$  के संगत है। हम देखते हैं कि यदि अंतरिक्ष में कोई बिंदु  $P(x, y, z)$  है, तो YZ, ZX तथा XY तलों से लंबवत् दूरियाँ क्रमशः  $x, y$  तथा  $z$  हैं।



आकृति 11.3

**टिप्पणी** बिंदु O के निर्देशांक  $(0, 0, 0)$  हैं।  $x$ -अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक  $(x, 0, 0)$  और YZ तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक  $(0, y, z)$  होते हैं।

**टिप्पणी** एक बिंदु के निर्देशांकों के चिह्न उस अष्टांश को निर्धारित करते हैं जिसमें बिंदु स्थित होता है। निम्नलिखित सारणी आठों अष्टांशों में निर्देशांकों के चिह्न दर्शाती है।

### सारणी 11.1

अष्टांश निर्देशांक	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
$x$	+	-	-	+	+	-	-	+
$y$	+	+	-	-	+	+	-	-
$z$	+	+	+	+	-	-	-	-

**उदाहरण 1** आकृति 11.3 में, यदि  $P$  के निर्देशांक  $(2, 4, 5)$  हैं तो  $F$  के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

**हल** बिंदु  $F$  के लिए  $OY$  के अनुदिश नापी गयी दूरी शून्य है। अतः  $F$  के निर्देशांक  $(2, 0, 5)$  हैं।

**उदाहरण 2** वे अष्टांश ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु  $(-3, 1, 2)$  और  $(-3, 1, -2)$  स्थित हैं।

**हल** सारणी 11.1 से, बिंदु  $(-3, 1, 2)$  दूसरे अष्टांश में तथा बिंदु  $(-3, 1, -2)$  छठे अष्टांश में स्थित हैं।

### प्रश्नावली 11.1

- एक बिंदु  $x$ -अक्ष पर स्थित है। इसके  $y$ -निर्देशांक तथा  $z$ -निर्देशांक क्या हैं?
- एक बिंदु  $XZ$ -तल में है। इसके  $y$ -निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
- उन अष्टांशों के नाम बताइए, जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं।  
 $(1, 2, 3), (4, -2, 3), (4, -2, -5), (4, 2, -5), (-4, 2, -5), (-4, 2, 5), (-3, -1, 6), (-2, -4, -7)$
- रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए:
  - $x$ -अक्ष और  $y$ -अक्ष दोनों एक साथ मिल कर एक तल बनाते हैं, उस तल को \_\_\_\_\_ कहते हैं।
  - $XY$ -तल में एक बिंदु के निर्देशांक \_\_\_\_\_ रूप के होते हैं।
  - निर्देशांक तल अंतरिक्ष को \_\_\_\_\_ अष्टांश में विभाजित करते हैं।

### 11.4 दो बिंदुओं के बीच की दूरी (Distance between Two Points)

द्विविमीय निर्देशांक निकाय में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब हम अपने अध्ययन का विस्तार त्रिविमीय निकाय के लिए करते हैं।

मान लीजिए, समकोणिक अक्ष  $OX, OY$  तथा  $OZ$  के सापेक्ष दो बिंदु  $P(x_1, y_1, z_1)$  तथा  $Q(x_2, y_2, z_2)$  हैं।

P तथा Q बिंदुओं से निर्देशांक तलों के समांतर तल खींचिए, जिससे हमें ऐसा घनाभ मिलता है जिसका विकर्ण PQ है (देखिए आकृति 11.4)

क्योंकि  $\angle PAQ$  एक समकोण है अतः  $\perp PAQ$  में,

$$PQ^2 = PA^2 + AQ^2 \quad \dots (1)$$

पुनः क्योंकि  $\angle ANQ$  = एक समकोण, इसलिए  $\perp ANQ$  में,

$$AQ^2 = AN^2 + NQ^2 \quad \dots (2)$$

(1) और (2) से हमें प्राप्त होता है, कि

$$PQ^2 = PA^2 + AN^2 + NQ^2$$

अब,  $PA = y_2 - y_1$ ,  $AN = x_2 - x_1$  और  $NQ = z_2 - z_1$

इस प्रकार,  $PQ^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2$

$$\text{अतः } PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

यह दो बिंदुओं  $P(x_1, y_1, z_1)$  और  $Q(x_2, y_2, z_2)$  के बीच की दूरी PQ के लिए सूत्र है।

विशेषतः यदि  $x_1 = y_1 = z_1 = 0$ , अर्थात् बिंदु P, मूल बिंदु O हो तो

$$OQ = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2},$$

जिससे हमें मूल बिंदु O और किसी बिंदु  $Q(x_2, y_2, z_2)$  के बीच की दूरी प्राप्त होती है।

**उदाहरण 3** बिंदुओं  $P(1, -3, 4)$  और  $Q(-4, 1, 2)$  के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

**हल** PQ बिंदुओं  $P(1, -3, 4)$  और  $Q(-4, 1, 2)$  के बीच की दूरी है।


$$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{(-4-1)^2 + (1+3)^2 + (2-4)^2} \\ &= \sqrt{25 + 16 + 4} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \text{ इकाई} \end{aligned}$$

**उदाहरण 4** दर्शाइए कि  $P(-2, 3, 5)$ ,  $Q(1, 2, 3)$  और  $R(7, 0, -1)$  सरेख हैं।

**हल** हम जानते हैं कि सरेख बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं।

$$\text{यहाँ } PQ = \sqrt{(1+2)^2 + (2-3)^2 + (3-5)^2} = \sqrt{9+1+4} = \sqrt{14}$$

$$QR = \sqrt{(7-1)^2 + (0-2)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{36+4+16} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$$



आकृति 11.4

$$\text{और } PR = \sqrt{(7+2)^2 + (0-3)^2 + (-1-5)^2} = \sqrt{81+9+36} = \sqrt{126} = 3\sqrt{14}$$

इस प्रकार  $PQ + QR = PR$

अतः बिंदु P, Q और R सरेख हैं।

**उदाहरण 5** क्या बिंदु A(3, 6, 9), B(10, 20, 30) और C(25, -41, 5) एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं?

**हल** दूरी-सूत्र से हमें प्राप्त होता है कि

$$\begin{aligned} AB^2 &= (10-3)^2 + (20-6)^2 + (30-9)^2 \\ &= 49 + 196 + 441 = 686 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BC^2 &= (25-10)^2 + (-41-20)^2 + (5-30)^2 \\ &= 225 + 3721 + 625 = 4571 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CA^2 &= (3-25)^2 + (6+41)^2 + (9-5)^2 \\ &= 484 + 2209 + 16 = 2709 \end{aligned}$$

हम पाते हैं कि  $CA^2 + AB^2 \neq BC^2$

अतः  $\triangle ABC$  एक समकोण त्रिभुज नहीं है।

**उदाहरण 6** दो बिंदुओं A तथा B के निर्देशांक क्रमशः (3, 4, 5) और (-1, 3, -7) हैं। गतिशील बिंदु P के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि  $PA^2 + PB^2 = 2k^2$ .

**हल** माना गतिशील बिंदु P के निर्देशांक  $(x, y, z)$  हैं।

$$\text{अब } PA^2 = (x-3)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2$$

$$PB^2 = (x+1)^2 + (y-3)^2 + (z+7)^2$$

दिए गए प्रतिबन्ध के अनुसार,  $PA^2 + PB^2 = 2k^2$ , हमें प्राप्त होता है:

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 + (x+1)^2 + (y-3)^2 + (z+7)^2 = 2k^2$$

$$\text{या } 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4x - 14y + 4z = 2k^2 - 109.$$

### प्रश्नावली 11.2

- निम्नलिखित बिंदु-युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए:
  - (2, 3, 5) और (4, 3, 1)
  - (-3, 7, 2) और (2, 4, -1)
  - (-1, 3, -4) और (1, -3, 4)
  - (2, -1, 3) और (-2, 1, 3)
- दर्शाइए कि बिंदु (-2, 3, 5) (1, 2, 3) और (7, 0, -1) सरेख हैं।

3. निम्नलिखित को सत्यापित कीजिएः
  - (i)  $(0, 7, -10), (1, 6, -6)$  और  $(4, 9, -6)$  एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
  - (ii)  $(0, 7, 10), (-1, 6, 6)$  और  $(-4, 9, 6)$  एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।
  - (iii)  $(-1, 2, 1), (1, -2, 5), (4, -7, 8)$  और  $(2, -3, 4)$  एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं।
4. ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु  $(1, 2, 3)$  और  $(3, 2, -1)$  से समदूरस्थ हैं।
5. बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं A  $(4, 0, 0)$  और B  $(-4, 0, 0)$  से दूरियों का योगफल 10 है।

### विविध उदाहरण

**उदाहरण 7** दर्शाइए कि बिंदु A  $(1, 2, 3)$ , B  $(-1, -2, -1)$ , C  $(2, 3, 2)$  और D  $(4, 7, 6)$  एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं परंतु यह एक आयत नहीं है।

**हल** यह दर्शाने के लिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हमें सम्मुख भुजाओं को समान दिखाने की आवश्यकता है।

$$AB = \sqrt{(-1-1)^2 + (-2-2)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{4+16+16} = 6$$

$$BC = \sqrt{(2+1)^2 + (3+2)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{9+25+9} = \sqrt{43}$$

$$CD = \sqrt{(4-2)^2 + (7-3)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{4+16+16} = 6$$

$$DA = \sqrt{(1-4)^2 + (2-7)^2 + (3-6)^2} = \sqrt{9+25+9} = \sqrt{43}$$

क्योंकि  $AB = CD$  और  $BC = AD$ , इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।

अब यह सिद्ध करने के लिए कि ABCD आयत नहीं है, हमें दिखाना है कि इसके विकर्ण AC और BD समान नहीं हैं, हम पाते हैं :

$$AC = \sqrt{(2-1)^2 + (3-2)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

$$BD = \sqrt{(4+1)^2 + (7+2)^2 + (6+1)^2} = \sqrt{25+81+49} = \sqrt{155}.$$

क्योंकि  $AC \neq BD$  । अतः ABCD एक आयत नहीं है।

 **टिप्पणी** विकर्ण AC तथा BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं, के गुण का प्रयोग करके भी ABCD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया जा सकता है।

**उदाहरण 8** बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार चलता है कि उसकी बिंदुओं A(3, 4, -5) व B(-2, 1, 4) से दूरी समान है।

**हल** कोई बिंदु P(x, y, z) इस प्रकार है कि PA = PB

$$\text{अतः} \quad \sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2 + (z+5)^2} = \sqrt{(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2}$$

$$\text{या} \quad (x-3)^2 + (y-4)^2 + (z+5)^2 = (x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2$$

$$\text{या} \quad 10x + 6y - 18z - 29 = 0.$$

**उदाहरण 9** एक त्रिभुज ABC का केंद्रक (1, 1, 1) है। यदि A और B के निर्देशांक क्रमशः (3, -5, 7) व (-1, 7, -6) हैं। बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

**हल** माना C के निर्देशांक (x, y, z) हैं और केंद्रक G के निर्देशांक (1, 1, 1) दिए हैं।

$$\text{इसलिए} \quad \frac{x+3-1}{3} = 1, \text{ या } x = 1$$

$$\frac{y-5+7}{3} = 1, \quad \text{या } y = 1$$

$$\frac{z+7-6}{3} = 1, \quad \text{या } z = 2.$$

अतः C के निर्देशांक (1, 1, 2) हैं।

### अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली

- समांतर चतुर्भुज के तीन शीर्ष A(3, -1, 2) B(1, 2, -4) व C(-1, 1, 2) हैं। चौथे शीर्ष D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
- एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A(0, 0, 6) B(0, 4, 0) तथा C(6, 0, 0) हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए।
- यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है और शीर्ष P(2a, 2, 6), Q(-4, 3b-10) और R(8, 14, 2c) हैं तो a, b और c का मान ज्ञात कीजिए।
- यदि बिंदु A और B क्रमशः (3, 4, 5) तथा (-1, 3, -7) हैं। चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए, जहाँ  $PA^2 + PB^2 = k^2$  जहाँ  $k$  अचर है।

## सारांश

- ◆ त्रिविमीय ज्यामिति के समकोणिक कार्तीय निर्देशांक निकाय में निर्देशांक तीन परस्पर लंबवत् रेखाएँ होती हैं।
  - ◆ निर्देशांकों के युगम, तीन तल निर्धारित करते हैं जिन्हें निर्देशांक तल XY-तल, YZ-तल व ZX-तल कहते हैं।
  - ◆ तीन निर्देशांक तल अंतरिक्ष को आठ भागों में बाँटते हैं जिन्हें **अष्टांश** कहते हैं।
  - ◆ त्रिविमीय ज्यामिति में किसी बिंदु P के निर्देशांकों को सदैव एक त्रिदिक  $(x, y, z)$  के रूप में लिखा जाता है। यहाँ x, YZ-तल से, y, ZX तल से व z, XY तल से दूरी है।
  - ◆ (i) x-अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक  $(x, 0, 0)$  हैं।  
(ii) y-अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक  $(0, y, 0)$  हैं।  
(iii) z-अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक  $(0, 0, z)$  हैं।
  - ◆ दो बिंदुओं P( $x_1, y_1, z_1$ ) तथा Q( $x_2, y_2, z_2$ ) के बीच का दूरी सूत्र है:
- $$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1637 ई॰ में वैश्लेषिक ज्यामिति के जनक René Descartes (1596—1650 A.D.) ने तलीय ज्यामिति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, इनके सहआविष्कारक Pierre Fermat (1601—1665 A.D.) और La Hire (1640—1718 A.D.) ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया। यद्यपि इन लोगों के कार्यों में त्रिविमीय ज्यामिति के संबंध में सुझाव है, परंतु विशद विवेचन नहीं है। Descartes को त्रिविमीय अंतरिक्ष में बिंदु के निर्देशांकों के विषय में जानकारी थी परंतु उन्होंने इसे विविसित नहीं किया।

1715 ई॰ में J. Bernoulli (1667—1748 A.D.) ने Leibnitz को लिखे पत्र में तीन निर्देशांक तलों का परिचय उल्लेखित है जिसे हम आज प्रयोग कर रहे हैं।

सर्वप्रथम सन 1700 ई॰ में फ्रेंच ऐकेडमी को प्रस्तुत किए गए Antoinne Parent (1666—1716 A.D.) के लेख में वैश्लेषिक ठोस ज्यामिति के विषय में विस्तृत विवेचन है।

L. Euler, (1707—1783 A.D.) ने सन 1748 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'ज्यामिति का परिचय' के दूसरे खंड के परिशिष्ट के 5वें अध्याय में त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का सुव्यवस्थित एंव क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया।

उनीसवाँ शताब्दी के मध्य के बाद ही ज्यामिति का तीन से अधिक आयामों में विस्तार किया गया, जिसका सर्वोत्तम प्रयोग Einstein के सापेक्षवाद के सिद्धांत में स्थान-समय अनुक्रमण (Space-Time Continuum) में द्रष्टव्य है।